

Regarding limited benefits covered under Ayushman Bharat Yojana

श्री जिया उर रहमान (सम्भल) : सभापति महोदया, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । ?आयुष्मान भारत योजना? जो सरकार की प्राथमिकता वाली योजना है, मैं आयुष्मान कार्ड के बारे में बोलना चाहता हूं । आयुष्मान कार्ड से जो लोग इलाज कराना चाहते हैं, पहले तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया जाता है और जब वे एडमिट हो जाते हैं तो बहुत-सी चीजों का खर्चा उसमें नहीं जोड़ा जाता है ।

मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब यह इतनी प्राथमिकता वाली योजना है तो इसमें सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी हॉस्पिटल उसके मातहत आते हैं, उसमें देश के लोगों का एडमिशन तुरंत होना चाहिए । वह जो पांच लाख रुपये की योजना है, मैं कहना चाहता हूं कि उसकी लागत बढ़ाकर 20 लाख कर देनी चाहिए । जितने भी रोग हैं, वे सब उसके अंदर कवर होने चाहिए, ताकि गरीब जनता को मुफ्त में इलाज मिल सके और इस योजना का सही तरीके से लाभ मिल सके । धन्यवाद ।